



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 25—अक्टूबर 1, 2004 (आश्विन 3, 1926)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 25—OCTOBER 1, 2004 (ASVINA 3, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION IV]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

मुंबई - 400005, दिनांक 11 सितम्बर 2004

सं. बैंपवि. आरईटी. बीसी. 40/12.01.001/2004-05--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 29 अप्रैल 2003 की अपनी अधिसूचना बैंपवि. सं. बीसी 98/12.01.001/2002-03 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखा जाने वाला औसत प्ररक्षित नकदी निधि अनुपात नीचे दी गई प्रभावी तारीखों से, उनके सामने दर्शाये गए प्रतिशतता बिन्दुओं के अनुसार होगा :

प्रभावी तारीख (अर्थात् किस तारीख से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से)	निवल मांग और मीयादी देयताओं पर प्ररक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत)
सितंबर 18, 2004	4.75
अक्टूबर 2, 2004	5.00

तथापि कुल मांग और मीयादी देयताओं पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखा जाने वाला प्रभावी प्ररक्षित नकदी निधि अनुपात 3.0 प्रतिशत से कम नहीं होगा, जैसा कि उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट है।

उषा थोरात
कार्यपालक निदेशक

मुंबई - 400021, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. के.का : कार्मिक : विधि : विविध-3965:04-05 : 585--बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ : (1) ये विनियम सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम 'सरकारी राजपत्र' में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में, विनियम 17 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"17 अपील : (1) अधिकारी कर्मचारी विनियम 4 में निर्धारित अपने ऊपर लगाए गए किसी भी दण्ड या विनियम 12 में उल्लिखित निलंबन आदेश के खिलाफ, आदेश मिलने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है। परंतु यदि अपील प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील न कर पाने का पर्याप्त कारण है तो वह उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है।

2. अपीलकर्ता द्वारा अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत की जाएगी जिसकी एक प्रति उस प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जिसने निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश दिया था। इस अपील में पूरी विवरण सामग्री एवं बहस के वे मुद्दे होंगे जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है परंतु उसमें कोई भी अपमानजनक अथवा अनुचित भाषा नहीं होगी और यह अपने आप में पूर्ण होगी।

3. निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाला प्राधिकारी, अपीलकर्ता से अपील की प्रति प्राप्त होने पर उसे, अपनी टिप्पणियों और संबंधित रिकॉर्ड के साथ, अपील प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

4. निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाले प्राधिकारी से मामले पर टिप्पणियाँ एवं रिकॉर्ड प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि क्या निलंबन आदेश/ निष्कर्ष न्यायसंगत है या क्या दण्ड बहुत अधिक या अपर्याप्त है और उचित आदेश पारित करेगा। अपील प्राधिकारी दण्ड/ निलंबन की पुष्टि करने, उसमें वृद्धि करने, कमी करने या उसे अलग रखने का आदेश पारित कर सकता है या मामले को, मामले की परिस्थितियों में उचित समझे गए निदेशों सहित, जिस अधिकारी ने दण्ड लगाया था उसके पास या किसी अन्य अधिकारी के पास भेज सकता है।

परंतु,

- (i) यदि बढ़ाया हुआ दण्ड, जो अपील प्राधिकारी लगाने हेतु प्रस्तावित करता है, विनियम 4 के खंड (च), (छ), (ज), (झ), और (ञ) में उल्लिखित अनुसार, कोई बड़ा दण्ड है और विनियम 6 में दिए गए अनुसार मामले में पहले कोई जांच नहीं की गई है तो अपील प्राधिकारी निदेश देगा कि विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार मामले की ऐसी जांच की जानी चाहिए और उसके पश्चात् के रिकॉर्ड पर विचार-विमर्श करेगा तथा जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित करेगा;
- (ii) यदि अपील प्राधिकारी दण्ड बढ़ाने का निर्णय लेता है परंतु विनियम 6 में दिए गए अनुसार जांच पहले ही की जा चुकी है, तो अपील प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि बढ़ाया हुआ दण्ड उस पर क्यों न लगाया जाए और अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए अंतिम आदेश पारित करेगा।

5. अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता से अपील प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर उसका निपटन करेगा :

परंतु, इस विनियम में उल्लिखित समय-सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जो सतर्कता से संबंधित हों और जहाँ अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध छोटी/बड़ी दण्ड कार्रवाई, मामले की जांच कर रही पुलिस या केन्द्रीय जांच ब्यूरो या केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जैसा भी मामला हो, द्वारा की गई सिफारिशों पर आरंभ की गई हो।

6. 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित मामलों की अपील प्राधिकारी द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी और मामलों को निपटार न जाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

एस. के. गुप्ता
महाप्रबंधक - कार्मिक
केन्द्रीय कार्यालय

टिप्पणी : सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में पहले किए गए संशोधन राजपत्र में निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रकाशित किए गए थे :

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक
1	जीएसआर सं. 44	01.11.1997
2	जीएसआर सं. 34	19.08.2000
3	जीएसआर सं. 09	03.03.2001
4	जीएसआर सं. 44	02.11.2002

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

औद्योगिक संबंध प्रभाग

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई-400021, दिनांक 31 अगस्त 2004

सं. 4(ए) 12.08.2004—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

- (1) ये विनियम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियम 2004 कहलायेंगे।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम 1976 में, विनियम 17 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“17 अपील :

1. अधिकारी कर्मचारी विनियम 4 में निर्धारित अपने ऊपर लगाए गए किसी भी दण्ड या विनियम 12 में उल्लिखित निलंबन आदेश के खिलाफ, आदेश मिलने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

परंतु, यदि अपील प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील न कर पाने का पर्याप्त कारण है तो वह उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है।

2. अपीलकर्ता द्वारा अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत की जाएगी जिसकी एक प्रति उस प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जिसने निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश दिया था। इस अपील में पूरी विवरण सामग्री एवं बहस के वे मुद्दे होंगे जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है परंतु उसमें कोई भी अपमानजनक अथवा अनुचित भाषा नहीं होगी और यह अपने आप में पूर्ण होगी।

3. निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाला प्राधिकारी, अपीलकर्ता से अपील की प्रति प्राप्त होने पर उसे, अपनी टिप्पणियों और संबंधित रिकार्ड के साथ, अपील प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

4. निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाले प्राधिकारी से मामले पर टिप्पणियां एवं रिकार्ड प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि क्या स्थगन आदेश/निष्कर्ष न्यायसंगत है या क्या दण्ड बहुत अधिक या अपर्याप्त है और उचित आदेश पारित करेगा। अपील प्राधिकारी दण्ड/निलंबन की पुष्टि करने, उसमें वृद्धि करने, कमी करने या उसे अलग रखने का आदेश पारित कर सकता है या मामले को, मामले की परिस्थितियों में उचित समझे गए निदेशों सहित, जिस अधिकारी ने दण्ड लगाया था उसके पास या किसी अन्य अधिकारी के पास भेज सकता है।

परंतु,

- (i) यदि बढ़ाया हुआ दण्ड, जो अपील प्राधिकारी लगाने हेतु प्रस्तावित करता है, विनियम 4 के खंड (च), (छ), (ज), (झ), और (ञ) में उल्लिखित अनुसार, कोई बड़ा दण्ड है और विनियम 6 में दिए गए अनुसार मामले में पहले कोई जांच नहीं की गई है तो अपील प्राधिकारी निदेश देगा कि विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार मामले की ऐसी जांच की जानी चाहिए और उसके पश्चात् जांच के रिकॉर्ड पर विचार-विमर्श करेगा तथा जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित करेगा;
- (ii) यदि अपील प्राधिकारी दण्ड बढ़ाने का निर्णय लेता है परंतु विनियम 6 में दिए गए अनुसार जांच पहले ही की जा चुकी है, तो अपील प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि बढ़ाया हुआ दण्ड उस पर क्यों न लगाया जाए और अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यवेदन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए अंतिम आदेश पारित करेगा।

5. अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर उसका निपटान करेगा :

परंतु, इस विनियम में उल्लिखित समय-सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जो सतर्कता से संबंधित हों और जहाँ अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध छोटी/बड़ी दण्ड कार्रवाई, मामले की जांच कर रही पुलिस या केन्द्रीय जांच ब्यूरो या केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जैसा भी मामला हो, द्वारा की गई सिफारिशों पर आरंभ की गई हो।

6. 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित मामलों की अपील प्राधिकारी द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी और मामलों को निपटार न जाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

के. एल. गोपालकृष्ण
महाप्रबंधक (मासंप्र)

टिप्पणी : यूनिन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में पहले किए गए संशोधन राजपत्र में निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रकाशित किए गए थे:

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक
1.	भाग III, धारा 4	30 दिसम्बर, 2000

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 2004

सं. के. भ. नि. आ. I(4)/2128/2004/एस--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति व सह की तिथि	
1.	एस/3982	मै. दान बास्को सोसल वेलफेयर सेन्टर	23.11.02	23.11.02
2.	एस/3378	मै. स्विच वाच सर्विस सेन्टर	28.05.04	28.05.04
3.	एस/3363	मै. लिटील फ्लोवर स्कूल	03.05.04	03.05.04
4.	एस/3381	मै. टूल राम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर	14.05.04	14.05.04

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. के. भ. नि. आ. I(4)/2127/2004/एपी--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति व सह की तिथि	
1.	एपी/डब्ल्यूएल/42619	मै. सहकारा जूनियर कॉलेज	01.09.03	01.09.03

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. के. भ. नि. आ. I(4)/2130/2004/ओआर--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति व सह की तिथि	
1.	ओआर/आरकेएल/7649	मै. हिमांशु सर्विसेज	01.09.99	31.08.99

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. ई-III/10 (3)/2004/एम.एच./--चूँकि मैसर्स वेस्टर्न इंडिया स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स लिमिटेड, कोड, संख्या एमएच/187 की अधिसूचना संख्या ई-102(19)ई/ए दिनांक 17.10.1957 (भारत के राजपत्र दिनांक 26.10.1957 के खण्ड-3, भाग-II में एस.आर.ओ.सं. 3416 के अंतर्गत प्रकाशित) के अनुसार क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1)(क) के अंतर्गत छूट प्रदान की गयी है।

चूँकि स्थापना बन्द हो गयी है उसने छूट सौंपने का विकल्प दिया है।

अतः अब कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (4) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं अजय सिंह, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद्द्वारा मैसर्स वेस्टर्न इंडिया स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स लिमिटेड को दी गयी छूट दिनांक 01.01.2004 से रह करता हूँ।

अजय सिंह
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
कोलकाता-700071, दिनांक 8 सितम्बर 2004

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

न. 3 ईसीए 5/1/2003-2004 : इस संस्थान की सूचना नं० 3 ईसीए/4/12/83-84 दिनांक 31.03.84, 3 ईसीए/4/3/92-93 दिनांक 22.1.93, 3 ईसीए/4/4/93-94 दिनांक 1.12.94, 3 ईसीए/4/3/94-95, दिनांक 3.2.95, 3 ईसीए/4/2/1995-96 दिनांक 25.3.96, 3 ईसीए/4/2/1996-97 दिनांक 20.12.96, 3 ईसीए/4/3/1998-99 दिनांक 12.5.99, 3 ईसीए/4/2/1999-2000 दिनांक 11.4.2000, 3 ईसीए/4/3/2000-2001 दिनांक 22.2.2001, 3 ईसीए/4/4/2000-2001 दिनांक 26.3.2001, 3 ईसीए/4/3/2001-02 दिनांक 13.8.2002, 3 ईसीए/4/3/2002-2003 दिनांक 31.3.2003, 25-सीए (28, 39, 40, 41, 42, 43, 45/95-96 दिनांक 7.2.2003, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी हुई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	000309	श्री गोस्वामी जोतिष चन्द, एफसीए 31/07/2003 ३४-ए, आनन्द पालित रोड कोलकाता-७०००१४	
2.	004423	श्री राय चौधरी अनिल बरन, एसीए 25/04/2003 ग्रीन म्यू, फ्लोट ४-एस.ई. ११९, साउदर्न ऐवन्यू कोलकाता-७०००२९	
3.	017175	श्री नहाटा हथी मल एफसीए, 08/04/2003 ७१, बी. आर. बी. बासु रोड ए-४१०, बागरी मार्केट, ४ तल्ला, कोलकाता-७००००१	
4.	050188	श्री मुखोपध्याय रवीन्द्र नाथ, एफसीए 1/04/2003 मसर्स दे एन्ड बोस ८/२, किरन शंकर राय रोड कोलकाता-७००००१	
5.	050648	श्री गौरीसरिया अरुन कुमार, एफसीए 26/05/2003 २९, वाटरलु स्ट्रीट, कोलकाता-७०००६९	
6.	050716	श्री मित्रा प्रत्युश कुमार, एसीए 02/09/2003 १२/१, कार्ल मार्क्स सरनी, कोलकाता-७०००२३	
7.	050859	श्री पाल अमित कुमार, एसीए 11/04/2003 असिसरेंजर जनरल मैनेजर (एस रपी) टाटा इन्जिनियरिंग एल.बी.एस. मार्ग बागले ईस्टेट थानो-४००६०४	
8.	050875	श्री मांगलिक अखिल कुमार एफसीए 28/08/2003 गुप्ता एन्ड मांगलिक, "इलेक्ट्रोनिक्स सेन्टर" रूम नं० ४ डी १/ए, बिपलव अनुकूल चन्द्र स्ट्रीट, कोलकाता-७०००७२	
9.	051099	श्री घोष देबाशिश एसीए 01/04/2003 २/१बी, सिम्प्लिक वेध स्ट्रीट, कोलकाता-७०००२९	
10.	051530	श्री राय उत्तपाल कुमार एफसीए 09/05/2003 बी एफ-२१० सेक्टर १ साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-७०००६४	
11.	052042	श्री महोता अशोक कुमार एफसीए 25/07/2003 २ बी. डी. बाग (ईस्ट) २ तल्ला, कोलकाता-७००००१	
12.	052326	श्री मित्रा राज सनतनु एसीए 16/04/2003 फ्लोट नं० ३४८ लिविंगस्टोन-लुसाका रोड माजाबुका, पोस्ट बॉक्स-६७०२१४ जाम्बिया ०	
13.	052651	श्री राय लक्ष्मन कुमार एफसीए 05/12/1994 सी/ओ एस. सी. राय बी. सी. सेन रोड बालाशोर-७५६००१	
14.	052825	श्री मित्रा आशीरा कुमार एफसीए 30/06/2003 फ्लोट नं० २/७ गंगोत्री अपार्टमेंट चन्द्रशेखरपुर भुवनेश्वर-७५१०१६	

15.	052875	श्री जेना अशीश बरन एसीए १९४/१, एन. एस. सी. बोस रोड कोलकाता - ७०० ०४७	28/07/2003	23.	055760	श्री चट्टोपध्याय सौरभ एसीए यू० टी० आई बैंक लिमिटेड ७, सेक्सपियर सरनी कोलकाता - ७०० ०७१	13/06/2003
16.	053361	श्री सरकार उत्तम एसीए ५/२ई, बेदियाडागा फर्स्ट लेन, कोलकाता - ७०० ०३९	20/05/2003	24.	056408	श्री तुलस्यान विजय कुमार एसीए ८/१६२, एमेश नगर न्यू दिल्ली ११००१५	16/04/2003
17.	053686	श्री मुखर्जी प्रोबल एफसीए ७२२-२२४७ हुरनटरियो स्ट्रीट, मिसिसीगा ओनटरियो एल ५ए २८२ ओनटरियो ० कनाडा	23/05/2003	25.	056511	श्री पात्रो जमुला शंकर नारायण एसीए ५ए, एच० पी० अपार्टमेंट ९ एस० वी० रोड चिनचोली सिगनल मलाड (डब्ल्यू) मुम्बई ४०० ०६४	28/07/2003
18.	054350	श्री लोयलका संजय कुमार एसीए चिफ इक्जिक्यूटिव ऑफिसर बिरला निफ्टी प्लाई लि० पोस्ट बाक्स- १३४६ वेस्ट पर्थ डबल्यू.ए. ६८७२ आस्ट्रेलिया ० आस्ट्रेलिया	01/10/2002	26.	056560	श्री चटर्जी देबासीस एसीए पी०- २७/४, टेलको कालोनी जमशेदपुर	03/06/2003
19.	055174	श्री सोनथालिया सौरभ एसीए सिनियर वाइस प्रेसिडेंट डी.एस. पी. मेरिल लिंच इनवेसमेंट मैनेजर ९१४, एहेजा चैम्बरस २१४, नारीमन प्वाइंट मुम्बई ४०००२९	14/05/2003	27.	056650	श्री घोष सुमित एसीए ४१ए, सेन्टल रोड, जादवपुर कोलकाता-७०००३२	01/04/2003
20.	055179	श्री लक्ष्मन नारायण एसीए ०२ बी. पी. ९९१ कोटनऊ वेस्ट अफ्रिका रिपब्लिक डे बेनिन ० वेस्ट अफ्रिका	27/08/2003	28.	056737	श्री पनी समरेन्द्र एसीए प्लॉट नं०-२१३२/५०३६ नगेश्वर तांगी लेविस रोड भुवनेश्वर ७५१००२	03/09/2003
21.	055186	श्री पांडेय राजिव कुमार एसीए प्लेट नं० बी-४-ई स्नेहा गार्डन २८, राय बहादुर रोड कोलकाता - ७०० ०५३	21/08/2003	29.	056811	श्री मुकर्जी सौमेन्द्रनाथ एसीए बी४/१०६ सकदरजंग इन्कलाव न्यू दिल्ली - ११००२९	06/05/2003
22.	055275	श्री डालमिया प्रवीण एफसीए प्रीमियर एग्रो आयलस (गमबिया) लि० नं० १ए, काटन स्टीट, पो० बाक्स - १५६३ बांजुल जांभिया	10/09/2003	30.	057159	श्री भुतरा विनोद कुमार एसीए मेसर्स प्रिंस कम्प्यूटर टेडिंग एल एल सी पो० बाक्स ३३५८१ दुबई (यू.ए.ई.) ०	04/08/2003
				31.	057189	श्री सिंह राजेश एसीए सी/ओ - विनेश सिंह १९८ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड ऑफर अपार्टमेंट्स फ्लैट्स १सी कोलकाता-७०००२६	24/04/2003
				32.	057764	श्री मिश्रा अशीश कुमार एसीए	25/06/2003

		प्लॉट नं०- २४ सेक्टर १६ए नोएडा २०१३०१			१०९, सुचेता नगर नियर - हाट्टू पोस्ट आफिस कोलकाता - ७०००७८		
33.	058021	श्री दत्ता दिव्येन्दु एसीए प्लॉट नं० २०२ ग्लेनीगल परेल टैंक रोड परेल मुम्बई ४०० ०१२	24/07/2003	39.	060414	श्री जोशी अमित कुमार एसीए ११, कलाइय रो फर्स्ट फ्लोर, र न नं० 'एच' कोलकाता - ७०० ००१	07/04/2003
34.	058532	मिस बंधोपध्याय स्मृति रानी एसीए 11/07/2003 १२०ए, के० एन० सेन रोड कोलकाता-७०० ०४२		40.	060535	श्री लोका पंकज एसीए के/आ० दुर्गापुर हार्डवेयरस बेनाचिटटी दुर्गापुर - ७१३२१३	01/10/2002
35.	059407	श्री अग्रवाल भारतेन्दु एसीए ४८ ब्लॉक - सी बांगुर ऐव्यू कोलकाता ७०० ०५५	16/09/2003	41.	061244	श्री साह महेश एसीए मेसर्स मोनो हिल प्रा० लि० नाइजेरिया, लागोस ० नाइजेरिया	24/06/2003
36.	059467	श्री बसाक अनुपम एसीए मैली नेस्ट कं आप० हाउसिंग सोसाइटी १९ए/१, उत्ताडंगा मेन रोड सी० आई० टी० स्कीम ८(एम) कोलकाता ७०० ०६७	29/04/2003	42.	077450	श्री मिश्रा विनय एसीए २/४०३, राविकांज अपार्टमेंट्स विद्युत बिहार सरकारी आवास समिति सेक्टर ६२, नोएडा	13/06/2003
37.	059812	मिस पारेख बाबी एसीए ३०, रीर कोर्ट # ५०३ जर्सी सिटी एन० जे० - ०७३१० न्यू जर्सी यू एस ए	10/06/2003	43.	090884	श्री मोहन्ती तापस रंजन एसीए प्लॉट नं० एन/६ ३१९, आई आर सी भिलेज भुवनेश्वर	28/04/2003
38.	060058	श्री सैलेश कुमार एसीए	10/04/2003	44.	091807	श्री राव एस बालाकृष्णा एसीए एन/९ हाल टाउनशिप पो० आ० - सोनाबेडा कोरापूठ - ७६३००२	04/09/2003

अशोक हलदिया
सचिव

**RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT**


Mumbai-400 005, the 11th September 2004

DBOD.No.Ret.BC.40/12.01.001/2004-05

In exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in supersession of its Notification DBOD No.BC.98/12.01.001/2002-03 dated April 29, 2003, the Reserve Bank of India hereby specifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by Scheduled Commercial Banks shall, from effective dates mentioned below, be at the percentage points as indicated thereagainst.

Effective date (ie the fortnight beginning from)	CRR on net demand and time liabilities (per cent)
September 18, 2004	4.75
October 2, 2004	5.00

However, the effective CRR maintained by Scheduled Commercial Banks on total demand and time liabilities shall not be less than 3.00 per cent, as stipulated under the Act, *ibid*.



**(Usha Thorat)
Executive Director**

CENTRAL BANK OF INDIA

PERSONNEL LEGAL DEPARTMENT, CENTRAL OFFICE

Mumbai-400021, the 30th August 2004

No.CO:PRS:LEGAL:MISC-3965:04-05:585..... In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Central Bank of India, in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend further the Central Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976 namely :-

SHORT TITLE AND COMMENCEMENT: -

(1) These Regulations may be called Central Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) (Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Central Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976, for Regulation 17, the following Regulation shall be substituted, namely :-

"17 Appeal : (1) An officer employee may prefer an appeal to the Appellate Authority within forty five days from the date of receipt of the order imposing upon him any of the penalties specified in regulation 4 or against the order of suspension referred to in Regulation 12.

Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

(2) The appeal shall be presented to the Appellate authority with a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies but shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall on receipt of a copy of the appeal from the appellant, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate Authority within a period not exceeding forty five days from the date of the receipt of the appeal.

(4) The Appellate authority on receipt of the comments and records of the case from the authority whose order is appealed against, consider whether the order of suspension/findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders. The Appellate authority may pass an order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty/suspension or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case.

Provided that :

If the enhanced penalty, which the Appellate authority proposed to impose is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h) (i) and (j) of regulation 4 and an inquiry as provided in regulation 6 has not already been held in the case, the Appellate authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of regulation 6 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper;

(ii) If the Appellate authority decides to enhance the punishment but an enquiry has already been held as provided in regulation 6, the Appellate authority shall give a show cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer employee.

(5) The Appellate authority shall dispose of the appeal within a period of ninety days from the date of its receipt from the appellant:

Provided that the time limit specified in this regulation shall not apply to cases having a vigilance angle and where major/minor penalty proceedings against the officer employee have commenced on recommendations of the Police or Central Bureau of Investigation or Central Vigilance Commission, as the case may be, investigating the matter.

(6) The cases lying pending over ninety days shall be reviewed periodically by the Appellate authority and reasons for non-disposal of the cases shall be recorded in writing".


(S. K. GUPTA)
GENERAL MANAGER (PRS)
CENTRAL OFFICE

Note: Earlier amendments to Central Bank Of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976 were published in the Gazette as per details given below :

S.No.	Notification No.	Dated
1.	GSR No. 44	1/11/1997
2.	GSR No. 34	19/8/2000
3.	GSR No. 9	3/3/2001
4.	GSR No. 44	2/11/2002

UNION BANK OF INDIA
INDUSTRIAL RELATIONS DIVISION
CENTRAL OFFICE
Mumbai-400021, the 31st August 2004

No. 4 (a)/12.08.2004 -- In exercise of the powers conferred by section 19 read with Sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Union Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend further the Union Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, namely:-

1. Short Title and Commencement

1. These Regulations may be called Union Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 2004.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Union Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, for Regulation 17, the following regulation shall be substituted, namely:-

"17 Appeal:

1. An officer employee may prefer an appeal to the Appellate Authority within forty five days from the date of receipt of the order imposing upon him any of the penalties specified in Regulation 4 or against the order of suspension referred to in Regulation 12:

Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

2. The appeal shall be presented to the Appellate Authority with a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies but shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.
3. The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal from the appellant, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate authority within a period not exceeding forty five days from the date of the receipt of the appeal.
4. The Appellate Authority shall on receipt of the comments and records of the case from the authority whose order is appealed against, consider whether the order of suspension / findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders. The Appellate Authority may pass an order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty / suspension or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case.

Provided that :

- (i) If the enhanced penalty, which the Appellate Authority proposed to impose is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of Regulation 4 and an inquiry as provided in Regulation 6 has not already been held in the case, the Appellate Authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of regulation 6 and

thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper ;

- (ii) If the Appellate Authority decides to enhance the punishment but an enquiry has already been held as provided. In Regulation 6, the Appellate authority shall give a show cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer employee.

5. The Appellate Authority shall dispose of the appeal within a period of ninety days from the date of its receipt from the appellant:

Provided that the time limit specified in this regulation shall not apply to cases having a vigilance angle and where major / minor penalty proceedings against the officer employee have commenced on recommendations of the Police or Central Bureau of Investigation or Central Vigilance Commission, as the case may be, investigating the matter.

6. The cases lying pending over ninety days shall be reviewed periodically by the Appellate authority and reasons for non-disposal of the cases shall be recorded in writing.


(K. L. GOPALAKRISHNA)
GENERAL MANAGER (HRM)

Foot Note: Earlier amendments to the Union Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 were published in the Gazette as per details given below :

S.No.

Notification No.

Date

1. PART III – Section 4

December 30, 2000

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION


(HEAD OFFICE)

New Delhi-66, the 2004

S.O. No. CPFC-1(4)2128/04/AS.— whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

S.No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1.	AS/3982	M/s Dan Basco Social Welfare Centre	23.11.2002	23.11.2002
2.	AS/5378	M/s Swiss Watch Service Centre	28.05.2004	28.05.2004
3.	AS/5363	M/s Little Flower School	03.05.2004	03.05.2004
4.	AS/5381	M/s Tool Ram & Training Centre	14.05.2004	14.05.2004

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.



[S.R. JOSHI]

Regional Provident Fund Commissioner (Compliance)

S.O. No.CPFC-1(4)2127/04/AP.— whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

S.No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1.	AP/WL/42619	M/s Sahakara Junior College	01.09.2003	01.09.2003

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.




{S.R.Joshi}

Regional Provident Fund Commissioner (Compliance)

S.O. No.CPFC-1(4)2130/04/OR.— whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely:

S.No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1.	OR/RKL/7649	M/s Himanshu Services	01.09.99	31.08.99

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.




[S.R.Joshi]

Regional Provident Fund Commissioner (Compliance)

No.E-III/10(3)2004/MH.—Whereas M/s. Western India Spinning & Weaving Mills Ltd. Code No.MH/187 had been granted exemption under Section 17(1)(a) of the EPF & MP Act, 1952 vide Notification No. E-102(19)E/A dated 17.10.1957 (published under SRO No.3416 in Part-II, Section 3 of the Gazette of India dated 26.10.1957).

And whereas the establishment is closed and has opted for surrender of exemption.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (a) of Sub Section (4) of Section 17 of the EPF & MP Act, 1952, I, Ajai Singh, Central Provident Fund Commissioner hereby cancel the exemption granted to M/s. Western India Spinning & Weaving Mills Limited w.e.f. 01-01-2004.



(AJAI SINGH)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

DECENTRALISED OFFICE

Kolkata-700071, the 8th September 2004

(CHARTERED ACCOUNTANT)

3ECA/5/1/2003-2004 : With reference to this Institute's Notification Nos. 3ECA/4/12/1983-84 dt. 31.3.84, 3ECA/4/3/92-93 dt. 22.1.93, 3ECA/4/4/93-94 dt. 1.12.94, 3ECA/4/3/94-95 dt. 3.2.95, 3ECA/4/2/95-96 dt. 25.3.96, 3ECA/4/2/96-97 dt. 20.12.96, 3ECA/4/3/98-99 dt. 12.5.99, 3ECA/4/2/99-00 dt. 11.4.2000, 3ECA/4/3/2000-01 dt. 22.2.2001, 3ECA/4/4/2000-01 dt. 26.3.2001, 3ECA/4/3/2001-02 dt. 13.8.02, 3ECA/4/3/2002-03 dt. 31.3.2003, 25-CA(28,39,40,41,42,43,44,45/95-96 dt. 7.2.2003. It is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following members :

S. No.	MRN	Member Name & Address	Restore dt.
1.	000309	Mr. Goswami Jotish chandra FCA 34-A, Ananda Palli Road Kolkata - 700014	31/07/2003
2.	004423	Mr. Roy Chowdhury Anil Baran ACA Green View Flat 4-SE 119 Southern Avenue Kolkata - 700029	25/04/2003
3.	017175	Mr. Nahata Hathi Mal FCA 71, B R B Basu Road A-410, Bagree Market 4th Floor, Kolkata - 700 001	08/04/2003
4.	050188	Mr. Mukhopadhyay Rabindra Nath FCA M/s De & Bose 8/2 Kiran Sankar Roy Road Kolkata 700001	01/04/2003
5.	050648	Mr. Gourisaria Arun Kumar FCA 29, Waterloo Street Kolkata - 700069	26/05/2003
6.	050716	Mr. Mitra Pradyum Kumar ACA 12/1 Karl Marx Sarani Kolkata - 700 023	02/09/2003
7.	050859	Mr. Paul Amit Kumar ACA Assistant General Manager (SAP) Tata Engineering LBS Marg WAGLE Estate Thane 400604	11/04/2003
6.	050875	Mr. Manglik Akhil Kumar FCA Gupta & Manglik "Electronics Centre Room No. 4D 1/A Bipin Anukul Chandra St. Kolkata - 700 072	28/08/2003
9.	051099	Mr. Ghosh Debasish ACA 2/18 Sebak Baldya Street Kolkata 700029	01/04/2003
10.	051530	Mr. Ray Utpal Kumar FCA BF-210 Sector 1 Salt Lake City Kolkata - 700064	09/05/2003
11.	052042	Mr. Mohita Ashok Kumar FCA 2 B B D Bag (East) 2nd Floor Kolkata - 700001	25/07/2003
12.	052326	Mr. Mitra Raj Shantanu ACA Plot 348 Livingstone-Lusaka Road Mazabuka P.O. Box 670214 Zambia 0	16/04/2003
13.	052651	Mr. Ray Lakshman Kumar FCA c/o S C Roy B C Sen Road Balasore 756001	05/12/1994
14.	052825	Mr. Mitra Asish Kumar FCA Flat 2/7 Gangotri Apartment Chandrasekharapur Bhubaneswar 751016	30/08/2003
15.	052875	Mr. Jana Ashit Baran ACA 194/1 N S C Bose Road Kolkata 700047	28/07/2003
16.	053361	Mr. Sarkar Uttam ACA 5/2E Bediadanga 1st Lane Kolkata - 700039	20/05/2003
17.	053686	Mr. Mukherjee Probal FCA 722-2247 Hurontario Street Mississauga Ontario L5A 2B2 Ontario 0 Canada	23/05/2003
16.	054350	Mr. Loyalka Sanjay Kumar ACA Chief Executive Officer Birla Nifty Ply Ltd. P.O. BOX 1346 West Perth W A 6872 Australia 0 Australia	01/10/2002
19.	055174	Mr. Sonthalia Saurabh ACA Sr. Vice President DSP Merille Lynch Investment Manager 914 Raaheja Chambers 214 Nariman Point Mumbai 400021	14/05/2003
20.	055179	Mr. Lakshman Narayan ACA O2 BP 911 Cotonou West Africa Republic De Benin 0 West Africa	27/08/2003
21.	055186	Mr. Pandey Rajeev Kumar ACA Flat No. B-4-E Sneha Garden 28 Rai Bahadur Road Kolkata - 700 053	21/11/2003
22.	055275	Mr. Dalmia Pravin FCA C/o Premier Agro Oils (Gambia)-td. No. 1A Cotton Street P.O. BOX 1563 Banjul 0 Gambia	10/09/2003

23.	055760	Mr. Chattopadhyay Sourav ACA UTI Bank Ltd 7 Shakespeare Sarani Kolkata 700071	13/06/2003	34.	058532	Ms. Bandopadhyay Smt. Rani ACA 120A K N Sen Road Kolkata 700042	11/07/2003
24.	056408	Mr. Tulshyan Vijay Kumar ACA 8/162 Ramesh Nagar New Delhi 110015	16/04/2003	35.	059407	Mr. Agarwal Bhartendu ACA 48 Block-C Bangur Avenue Kolkata 700055	16/09/2003
25.	056511	Mr. Patil Jyotiraj Sankar ACA 5A HP Apartment 9 S V Road Chincholi Signal Maid (W) Mumbai 400064	28/07/2003	36.	059467	Mr. Basak Anupam ACA Valley Nest Co.op. Housing Society 19A/1 Uttadanga Main Road CIT Scheme VIII (M) Kolkata 700067	29/04/2003
26.	056560	Mr. Chatterjee Debasish ACA P-27/8 Telco Colony Jamshedpur 0	03/06/2003	37.	059812	Ms. Parakh Bobby ACA 30 River Court # 503 Jersey City NJ 07310 New Jersey 0 USA	10/06/2003
27.	056650	Mr. Ghosh Sumit ACA 41A Central Road Jadavpur Kolkata - 700 032	01/04/2003	38.	060058	Mr. Saitesh Kumar ACA 109 Sucheta Nagar Near Haktu Post Office Kolkata - 700078	10/04/2003
28.	056737	Mr. Pari Samarendra ACA Plot No. 2132/5036 Nageswar Tangi Lewis Road Bhubaneswar 751002	03/09/2003	39.	060414	Mr. Joshi Amit Kumar ACA 11 Clive Row 1st Floor Room No. 'H' Kolkata - 700 001	07/04/2003
29.	056811	Mr. Mukherji Soumendranath ACA B4/106 Seldurjung Enclave New Delhi 110029	08/05/2003	40.	060535	Mr. Lodha Pankaj ACA C/o Durgapur Hardwares Benachitty Durgapur 713213	01/10/2002
30.	057159	Mr. Bhutra Binod Kumar ACA M/s Prince Computer Trading LLC PO Box 33581 Dubai (U.A.E.) 0	04/08/2003	41.	061244	Mr. Shah Mahesh ACA M/s Monohill (Pvt.) Ltd. Nigeria Lagos 0 Nigeria	24/06/2003
31.	057189	Mr. Singh Rajesh ACA C/o Vinesh Singh 198A Shyama Prasad Mukherjee Road Orkar Apartments Flat 1C Kolkata - 700026	24/04/2003	42.	077450	Mr. Misra Binoy ACA 2/403 Shaktikunj Apts. Vidyut Vihar, Sarkari Awas Samity Sector 62 Noida 0	13/06/2003
32.	057764	Mr. Mishra Ashis Kumar ACA Plot No. 24 Sector 16A Noida 201301	25/06/2003	43.	090884	Mr. Mohanty Tapes Ranjan ACA Plot No. N/6 319 I R C Village Bhubaneswar 0	28/04/2003
33.	058021	Mr. Dutta Dibyendu ACA Flat No. 202 Gleneagle Parel Tank Road Parel Mumbai 400012	24/07/2003	44.	091807	Mr. Rao S Balakrishna ACA N/9 Hal Township P.O. Sonabeda Koraput 763002	04/09/2003

AH HLD
(ASHOK HALDIA)
Secretary